

भारत में मानसिक स्वास्थ्य सेवा का पुनरुद्धार

यह एडिटरियल 19/08/2024 को 'इंडियन एक्सप्रेस' में प्रकाशित "Mental health of medical students can no longer be ignored" लेख पर आधारित है। इसमें भारत की मानसिक स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में वदियमान प्रमुख समस्याओं की चर्चा की गई है और आबादी के सभी वर्गों को प्रभावित करने वाले मानसिक स्वास्थ्य मुद्दों से निपटने के लिये रणनीतियाँ सुझाई गई हैं।

प्रलिस के लिये:

[मानसिक स्वास्थ्य, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग, विश्व स्वास्थ्य संगठन, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य नीति, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और स्नायु विज्ञान संस्थान \(NIMHANS\), करिण हेल्पलाइन, मानसिक स्वास्थ्य सेवा अधिनियम 2017](#)।

मेन्स के लिये:

भारत में मानसिक स्वास्थ्य विकारों की व्यापकता, भारत में मानसिक स्वास्थ्य सेवा प्रणाली के सामने प्रमुख चुनौतियाँ, भारत में मानसिक स्वास्थ्य सेवा में सुधार के लिये आगे की राह।

पछिले पाँच वर्षों में 122 छात्रों द्वारा आत्महत्या किये जाने के परदृश्य में मेडिकल छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य एवं कल्याण को संबोधित करने के लिये हाल ही में [राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग \(National Medical Commission- NMC\)](#) द्वारा एक कार्यबल का गठन किया गया। आयोग द्वारा आयोजित एक ऑनलाइन सर्वेक्षण से पता चला कि 27.8% स्नातक मेडिकल छात्र मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझ रहे हैं, जबकि [राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग](#) के मन में आत्महत्या के विचार आए हैं। इससे प्रकट होता है कि मानसिक स्वास्थ्य एक गंभीर चिंता का विषय है और इसके लिये एक सुनियोजित नीति की आवश्यकता है।

मानसिक स्वास्थ्य (Mental Health) क्या है?

- परिचय: [विश्व स्वास्थ्य संगठन \(WHO\)](#) के अनुसार, मानसिक स्वास्थ्य मानसिक कल्याण की एक स्थिति है जो लोगों को जीवन के तनावों से निपटने, अपनी क्षमताओं को पहचानने, अच्छी तरह से सीखने एवं कार्य करने और अपने समुदाय में योगदान करने में सक्षम बनाता है।
- अच्छा मानसिक स्वास्थ्य: अच्छे मानसिक स्वास्थ्य की पहचान भावनात्मक स्थिरता, प्रत्यास्थता, आत्म-सम्मान और तनाव से प्रभावी ढंग से निपटने की क्षमता से होती है। इसमें सकारात्मक संबंध बनाए रखना और जीवन के प्रती संतुलित दृष्टिकोण बनाए रखना भी शामिल है।
- मानसिक स्वास्थ्य दशाएँ: मानसिक स्वास्थ्य दशाओं में मानसिक विकार और मनोसामाजिक निःशक्तिता के साथ ही भारी तनाव, कार्य करने में बाधा या आत्म-कषता के जोखिम से संबद्ध अन्य मानसिक स्थितियाँ शामिल हैं।
 - मानसिक विकार (mental disorder) किसी व्यक्ति की अनुभूति, भावनात्मक विनियमन या व्यवहार में नैदानिक रूप से गंभीर व्यवधान के रूप में चिह्नित होता है।
- मानसिक विकारों के सामान्य प्रकार:
 - दुश्चिंता विकार (Anxiety Disorders):
 - यह अत्यधिक भय एवं चिंता के साथ ही व्यवहारगत समस्या से चिह्नित होता है।
 - वर्ष 2019 में 301 मिलियन लोग दुश्चिंता विकार से पीड़ित थे, जिनमें 58 मिलियन बच्चे और कशोर शामिल थे।
 - अवसाद (Depression):
 - इसमें लगातार उदासी, निराशा और गतिविधियों में रुचि या आनंद की कमी की भावना बनी रहती है।
 - वर्ष 2019 में 280 मिलियन लोग अवसाद से ग्रस्त थे, जिनमें 23 मिलियन बच्चे और कशोर शामिल थे।
 - द्वि-ध्रुवीय भावदशा विकार (Bipolar Disorder):
 - इस विकार से पीड़ित लोग अवसाद और उन्माद (mania) के प्रत्यावर्ती दौर का अनुभव करते हैं।
 - अवसाद के दौर में वे लंबे समय तक उदासी या गतिविधियों में अरुचि का अनुभव कर सकते हैं उन्माद के दौर में खुशमजिजी, अत्यंत सक्रियता, बातूनीपन, ज़हनी उपद्रव और आवेगपूर्ण व्यवहार की विशेषताएँ प्रकट हो सकती हैं।
 - द्विध्रुवीय विकार से ग्रस्त लोगों में आत्महत्या का जोखिम अधिक होता है।
 - अभघातजन्य तनाव विकार (Post-Traumatic Stress Disorder- PTSD):

- कसी आघातजनक घटना के संपर्क में आने के बाद वकिसति होने वाले PTSD में 'फ्लैशबैक' या दुःस्वप्न और अत्यधिक उत्तेजना के रूप में आघात की लगातार पुनरावृत्ति देखी जाती है ।
- **मनोवदिलता/स्कत्ज़ोफ़रेनया (Schizophrenia):**
 - यह एक गंभीर मानसकिक विकार है जिसमें विकृत सोच, धारणाएँ और भावनाएँ पाई जाती हैं । यह व्यक्तिके सोचने और व्यवहार करने के तरीके को प्रभावित करता है, जहाँ परायः वास्तविकता से उसका संपर्क टूट जाता है ।
 - स्कत्ज़ोफ़रेनया या सज़ोफ़रेनया से दुनिया भर में लगभग 24 मिलियन लोग या प्रत्येक 300 में से 1 व्यक्ति प्रभावित हैं ।
- **आहार ग्रहण विकार (Eating Disorders):**
 - आहार ग्रहण विकार, जैसे एनोरेक्सिया **नर्वोसा (anorexia nervosa)** और बुलीमिया नर्वोसा (bulimia nervosa) में असामान्य खान-पान और आहार के प्रति अत्यधिक ध्यान केंद्रित करना, साथ ही शरीर के वजन और आकार को लेकर चिंताएँ करना शामिल होता है ।
 - इसके लक्षणों या संबद्ध व्यवहारों के परिणामस्वरूप स्वास्थ्य के लिये गंभीर जोखिम उत्पन्न होते हैं, गंभीर तनाव या कार्यकलाप में गंभीर निःशक्तता प्रकट होती है ।
- **वधितनकारी व्यवहार और असामाजिक विकार (Disruptive Behaviour and Dissocial Disorders):**
 - वधितनकारी व्यवहार और असामाजिक विकार व्यवहार संबंधी नियमिता समस्याओं से चिह्नित होते हैं, जैसे कलगातार वदिरोही या अवज्ञाकारी व्यवहार, जो लगातार दूसरों के मूल अधिकारों या प्रमुख आयु-उपयुक्त सामाजिक मानदंडों, नियमों या कानूनों का उल्लंघन करते हैं ।
- **तंत्रिका-विकास संबंधी विकार (Neurodevelopmental Disorders):**
 - ये व्यवहारगत और संज्ञानात्मक विकार हैं, जो विकासात्मक अवधि के दौरान उत्पन्न होते हैं और वशिष्ट बौद्धिक, चलन संबंधी, भाषाई या सामाजिक कार्यों के अधिग्रहण एवं नषिपादन में गंभीर कठिनाइयाँ उत्पन्न करते हैं ।
 - इन विकारों में **बौद्धिक विकास संबंधी विकार, ऑटिज़्म स्पेक्ट्रम डिस-ऑर्डर और ADHD** (attention deficit hyperactivity disorder) शामिल हैं ।

//



FACTS ON MENTAL ILLNESS



Mental illness affects nearly **970 MILLION** people around the world.



Any Mental Illness (AMI) is higher among **FEMALES (27.2%)** than males (18.1%).



Women are nearly **TWICE AS LIKELY TO SUFFER** from major **depression** than men.



Young adults aged **18-25 years** have the **highest prevalence of AMI (33.7%)** compared to adults aged **26-49 years (28.1%)** and aged **50 and older (15.0%)**.



The prevalence of **AMI is highest among ADULTS OF COLOR (34.9%)**



Among the 57.8 million adults with AMI, **ONLY 47.2%** receive mental health services in the past year.



An estimated **49.5% OF ADOLESCENTS** have any mental disorder.



Most people who **commit suicide** have a **DIAGNOSABLE MENTAL DISORDER**

MIND  HELP

MIND  JOURNAL

भारत में मानसिक स्वास्थ्य विकार की व्यापकता:

- **राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण (2015-16):**
 - [राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और सनायु वजिज्ञान संस्थान \(NIMHANS\)](#) द्वारा आयोजित राष्ट्रव्यापी अध्ययन से उजागर हुआ कि भारत की सामान्य जनसंख्या का कम से कम **13.7%** भाग **वभिन्न प्रकार की मानसिक बीमारियों** से पीड़ित है और इनमें से **10.6%** को तत्काल उपचार की आवश्यकता है।
- **आत्महत्या की दर:**
 - भारत विश्व में सर्वाधिक आत्महत्या वाला देश होने की **कुख्याति** रखता है। [राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो](#) की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में भारत में **1.71 लाख लोगों** ने आत्महत्या की।

- देश में आत्महत्या की दर बढ़कर **12.4 प्रति 1 लाख** हो गई है।
- **नैराश्य विकार (Depressive Disorders):**
 - **WHO की एक रिपोर्ट** के अनुसार, भारत गंभीर मानसिक स्वास्थ्य संकट का सामना कर रहा है, जहाँ अनुमानतः 56 मिलियन लोग अवसाद से और **38 मिलियन लोग** दुश्चिन्ता विकारों से पीड़ित हैं।

भारत में मानसिक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली के समक्ष वदियमान प्रमुख चुनौतियाँ:

- **नमिन नीति प्राथमिकता:**
 - मानसिक स्वास्थ्य ऐतिहासिक रूप से भारतीय नीति निर्माताओं के लिये नमिन प्राथमिकता का विषय रहा है।
 - मानसिक स्वास्थ्य के लिये **93,000 करोड़ रुपए से अधिक की अनुमानित** आवश्यकता के बावजूद, सरकार ने वर्ष 2019 में केवल 600 करोड़ रुपए और नवीनतम बजट में केवल **1,000 करोड़ रुपए** आवंटित किये, जिसमें से अधिकांश धनराशि तृतीयक सेवा संस्थानों को प्रदान की गई।
- **अपर्याप्त मानसिक स्वास्थ्य अवसंरचना:**
 - देश में मानसिक स्वास्थ्य के लिये समर्पित स्वास्थ्य सेवा अवसंरचना की भारी कमी पाई जाती है। बढ़ती मांग को पूरा करने के लिये पर्याप्त संख्या में मानसिक स्वास्थ्य पेशेवरों, अस्पतालों या अन्य प्रतष्ठानों का अभाव है।
 - भारत में प्रति 100,000 जनसंख्या पर **0.75 मनोचिकित्सक** उपलब्ध हैं, जबकि वांछनीय संख्या प्रति 100,000 पर 3 मनोचिकित्सक से अधिक है।
- **उच्च उपचार लागत:**
 - नज्दी स्वास्थ्य देखभाल केंद्रों में मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं की लागत बहुत से लोगों के लिये अवहनीय या नषिदिधकारी है।
 - हाल ही में आयोजित **राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NMHS)** के अनुसार, भारत में किसी भी मानसिक विकार के लिये उपचार का अंतराल 83% तक पाया गया है।
 - मानसिक बीमारियों के इलाज पर व्यय के परिणामस्वरूप लगभग **20% भारतीय परिवार गरीबी** के शिकार हो जाते हैं।
- **नीति कार्यान्वयन में चुनौतियाँ:**
 - भारत के नीति निर्माण में एक सामान्य मुद्दा यह है कि आवश्यकता और व्यवहार्यता के बीच अंतर पाया जाता है।
 - राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य नीति 2014 और **मानसिक स्वास्थ्य सेवा अधिनियम 2017** का उद्देश्य मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देना था, लेकिन इनमें कार्यान्वयन, संसाधन आवंटन और समयसीमा के बारे में स्पष्टता का अभाव है।
- **शहरी-ग्रामीण विभाजन:**
 - मानसिक स्वास्थ्य सेवाएँ शहरी क्षेत्रों में केंद्रित हैं, जिससे ग्रामीण आबादी के लिये देखभाल तक सीमित पहुँच या पहुँच के अभाव की स्थिति पाई जाती है। यह भौगोलिक विषमता ग्रामीण क्षेत्रों में मानसिक स्वास्थ्य संकट को और बढ़ा देती है।
- **कलंक और भेदभाव:**
 - भारत में **मानसिक स्वास्थ्य** संबंधी समस्याओं को प्रायः कलंकित किया जाता है, जिससे सामाजिक भेदभाव उत्पन्न होता है। इससे लोग मदद लेने के लिये हतोत्साहित होते हैं और उनकी स्थिति बिदतर होती जाती है।
- **जागरूकता और शिक्षा का अभाव:**
 - मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता की कमी है, जिसके कारण गलत धारणाओं और उपेक्षा की स्थिति बिनती है **मानसिक स्वास्थ्य साक्षरता** को बढ़ावा देने के लिये शैक्षिक पहल अपर्याप्त हैं।

मानसिक स्वास्थ्य में सुधार के लिये सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

- [राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम \(NMHP\)](#)
- [मानसिक स्वास्थ्य सेवा अधिनियम 2017](#)
- [राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और सनायु वजिज्ञान संस्थान \(NIMHANS\)](#)
- [राष्ट्रीय टेली मेंटल हेल्थ कार्यक्रम](#)
- [NIMHANS और iGOT-Diksha के बीच सहयोग](#)
- [आयुषमान भारत - HWC योजना](#)
- [करिण हेल्पलाइन](#)
- [मानस \(MANAS\) मोबाइल ऐप](#)

देश में मानसिक स्वास्थ्य देखभाल में सुधार के लिये आगे की राह:

- **मानसिक स्वास्थ्य के लिये वित्तपोषण में वृद्धि करना:** कुल स्वास्थ्य बजट का एक बड़ा हिस्सा मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं के लिये आवंटित किया जाए। दैनिक वेतनभोगियों और अन्य कमजोर समूहों द्वारा सामना की जाने वाली मानसिक स्वास्थ्य चुनौतियों को देखते हुए, मानसिक स्वास्थ्य अवसंरचना में अधिक निवेश करना अत्यंत आवश्यक है।
 - **चालू वित्त वर्ष (वित्त वर्ष 2024-25)** के लिये स्वास्थ्य बजट कुल बजट का मात्र 2% है, जबकि मानसिक स्वास्थ्य बजट कुल स्वास्थ्य बजट का लगभग 1% है।
- **सुविधाओं का विस्तार करना:**
 - कम सुविधा वाले क्षेत्रों को कवर करने के लिये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और आपातकालीन देखभाल इकाइयों सहित अधिक संख्या में मानसिक स्वास्थ्य सुविधाएँ विकसित की जाएँ।
 - मोबाइल स्वास्थ्य इकाइयों और टेलीमेडिसिन के माध्यम से ग्रामीण एवं दूरदराज के क्षेत्रों में मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच बढ़ाया

जाए।

■ **आर्थिक स्थिरता का समर्थन करना:**

- दैनिकी वेतनभोगियों को नौकरी की सुरक्षा और वित्तीय स्थिरता प्रदान करने के लिये **महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (MNREGS)** जैसे रोजगार गारंटी कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया जाए।
- सुनिश्चिता कथिा जाए कऱ सामाजकि सुरकषऱ उपाय अनौपचारकि करमकारों सहति सभी के लयि सुलभ हों।

■ **राष्ट्रीय नीतियों और अधिनियमों का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चिता करना:**

- नीतिका प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चिता कथिा जाए, जिसका उद्देश्य मानसकि स्वास्थय को सामान्य स्वास्थय देखभाल में ँकीकृत करना और गुणवत्तापूरण देखभाल प्रदान करना है।
- नीतगित नरिणय और संसाधन आवंटन के लयि मानसकि स्वास्थय स्थितियों पर डेटा ँकत्र करने तथा उसका वशिलेष्ण करने हेतु सुदृढ़ प्रणालियों स्थापति की जाएँ।

■ **प्रशकिष्ण ँवं कषमता नरिमाण:**

- **शीघ्र पहचान (early detection)** और हस्तकषेप में सुधार के लयि मानसकि स्वास्थय समस्याओं पर प्राथमकि देखभाल चकितिसकों, नर्सों और सामुदायकि स्वास्थय कार्यकरताओं को वशिष प्रशकिष्ण प्रदान कथिा जाए।
- **शैकषकि कार्यक्रमों ँवं प्रोत्साहनों** के माध्यम से मनोचकितिसकों, मनोवैज्जानकों और सामाजकि कार्यकरताओं सहति मानसकि स्वास्थय पेशेवरों की संखया में वृद्धि की जाए।

■ **HIV-AIDS से नपिटने से प्राप्त सबक से प्रेरणा ग्रहण करना:**

- **HIV-AIDS** से लड़ने में भारत की सफलता मानसकि स्वास्थय के लयि बहुमूल्य सबक प्रदान कर सकती है।
- साकष्य-आधारति हस्तकषेप, सामुदायकि संलग्नता और वभिनिन हतिधारकों की सकरयि भागीदारी के साथ प्रभावी रणनीतियों का प्रयोग कर देश की मानसकि स्वास्थय चुनौतियों से नपिटऱ जा सकता है।

■ **सहयोग और साझेदारी:**

- मानसकि स्वास्थय सेवाओं का वसितार करने और हाशयि पर स्थति समुदायों तक पहुँच बनाने के लयि गैर-सरकारी संगठनों, स्वास्थय सेवा प्रदाताओं और सामुदायकि संगठनों के साथ सहयोग स्थापति कथिा जाए।
- **बनयान (तमलिनाडु), संगथ (गोवा) और सेंटर फॉर मेंटल हेल्थ लॉ ँंड पॉलिसी (पुणे)** जैसे संगठनों ने अभनिव ँवं साकष्य-आधारति रणनीतियों के माध्यम से मानसकि स्वास्थय के कषेत्र में महत्त्वपूरण योगदान दिया है।

■ **जागरूकता और स्वीकृती को बढ़ावा देना:**

- मानसकि स्वास्थय स्वीकृती और जागरूकता में सुधार लाने के लयि, वशिष रूप से समाज के कमजोर वर्गों के बीच, सकरयि नीतियों का करधिनवयन कथिा जाए।
- इसमें कलंक को कम करने और शीघ्र हस्तकषेप को प्रोत्साहति करने के लयि मानसकि स्वास्थय जागरूकता अभयान तथा प्रशकिष्ण कार्यक्रम आयोजति करना शामिल हो सकता है।

नषिकरष:

भारत में मानसकि स्वास्थय सेवा को बेहतर बनाने के लयि वतितपोष्ण में वृद्धि, प्राथमकि देखभाल में सेवाओं के ँकीकरण और पहुँच का वसितार करने के लयि प्रौद्योगिकी के उपयोग के माध्यम से मानसकि स्वास्थय को प्राथमकिता देना अत्यंत आवश्यक है। हालाँकि मेडिकल छात्रों के मानसकि स्वास्थय पर ध्यान केंद्रति करने के लयि हाल में कार्यबल का गठन ँक सकारात्मक कदम है, यहीं तक सीमति नहीं रहते हुए अधिक व्यापक उपायों की आवश्यकता है। मानसकि स्वास्थय को संबोधति करना स्वास्थय के मूलभूत मानवाधिकार को बनाए रखने और 'अच्छा स्वास्थय और कल्याण' (good health and well-being) के SDG-3 को आगे बढ़ाने के लयि अत्यंत आवश्यक है।

अभ्यास प्रश्न: भारत में मानसकि स्वास्थय सेवा प्रणाली के समकष वदियमान प्रमुख चुनौतियों की चर्चा कीजयि। उन्हें प्रभावी ढंग से संबोधति करने के लयि कौन-से उपाय कथि जा सकते हैं?

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

[?/?/?/?/?/?/?/?/?/?/?/?]:

प्रश्न: नमिनलखिति में से कौन-से मूलतः समावेशी शासन के अंग कहे जा सकते हैं?

1. गैर-बैकगि वतितयि कम्पनियों को बैकगि करने की अनुमतप्रदान करना।
2. सभी जलियों में प्रभाव जलिा योजना समतियिों संगठति करना।
3. जन-स्वास्थय पर सरकारी व्यय में बढ़ोत्तरी करना।
4. दोपहर का भोजन योजना का सशक्तीकरण करना

नमिनलखिति कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनयि

- A) 1 और 2
B) 3 और 4
C) 2, 3 और 4

D) 1, 2, 3 और 4

उत्तर: C

??????:

प्रश्न. सामाजिक विकास की संभावनाओं को बढ़ाने के क्रम में विशेषकर जरा चकितिसा एवं मातृ स्वास्थ्य देखभाल के क्षेत्र में सुदृढ़ और पर्याप्त स्वास्थ्य देखभाल संबंधी नीतियों की आवश्यकता है। वविचना कीजयि। (2020)

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/revamping-mental-healthcare-in-india>

